

01<sup>st</sup> June, 2019

*Scrip Code: 532290/ BLBLIMITED*  
*ISIN No.: INE791A01024*

To,

The Manager (Listing)  
**BSE Limited**  
Phiroze Jeejeebhoy Towers,  
Dalal Street,  
Mumbai-400 001

*Scrip Code: 532290*

To,

The Manager (Listing)  
**National Stock Exchange of India Limited**  
Exchange Plaza,  
Bandra Kurla Complex,  
Bandra (East), Mumbai-400 051

*Scrip Code: BLBLIMITED*

**Sub: Submission of Newspapers Advertisement of Audited Financial Results for the quarter and year ended on 31st March, 2019**

Dear Sir/ Madam,

Pursuant to the applicable Regulations of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith copy of Audited Financial Results for the quarter and year ended on 31<sup>st</sup> March, 2019 as published in "The Financial Express" (*English, all Editions*) and "Jansatta" (*Hindi, Local Edition*) on 01.06.2019 and considered by the Board of Directors in their meeting held on 30<sup>th</sup> May, 2019.

This is for your kind information and records.

Thanking you,

For **BLB LIMITED**



**(VARSHA YADAV)**  
**COMPANY SECRETARY**

M.No : A39192

**BLB Limited**

CIN : L67120HR1981PLC051078  
Corporate Member : NSE & BSE

Corporate Office : H.No. 4760-61/23, 3rd Floor, Ansari Road, Darya Ganj, New Delhi -110 002 Tel. : 011-49325600  
Registered Office : SCO (Shop Cum Office) No. 22, Spring Field Colony, Extension No. 1, Near Sector-31-32, Faridabad - 121003, Haryana  
Website : www.blblimited.com, Email : infobl@blblimited.com

**STANTIS LIMITED**

99PLC010950  
Jagar, Kanpur-208002  
www.surfactants.com  
www.surfactants.com

This notice published  
informed that board  
meeting was scheduled  
for 2019, has been  
adjourned. The adjourned  
meeting will be held on Monday,  
June 3, 2019, at the registered  
office of the Company at  
www.surfactants.com and that  
www.bseindia.com.

By order of the Board  
Ankur Garg  
Whole Time Director  
DIN 00616599

**BLB Limited**

CIN: L67120HR1981PLC051078 (Corporate Member: NSE & BSE)  
Registered Office: SCO (Shop Cum Office) No. 22, Spring Field Colony, Extension No. 1,  
Near Sector 31-32 Faridabad-121003, Haryana

**EXTRACTS OF AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED MARCH 31, 2019**

Sr. No.	Particulars	(Rs. In Lacs)				
		Quarter Ended			Year Ended	
		31-Mar-19 (Audited)	31-Dec-18 (Unaudited)	31-Mar-18 (Audited)	31-Mar-19 (Audited)	31-Mar-18 (Audited)
1	Total Income from Operations (net)	1,211	2,999	20,810	19,494	51,806
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	(137)	(168)	222	(287)	(565)
3	Net Profit / (Loss) for the period before Tax(after Exceptional and/or Extraordinary items)	(137)	(168)	222	(287)	(565)
4	Net Profit / (Loss) for the period after Tax(after Exceptional and/or Extraordinary items)	(312)	(118)	358	(406)	(520)
5	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and other Comprehensive Income (after tax)	(307)	(50)	350	(373)	(535)
6	Equity Share Capital	529	529	529	529	529
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year				8,946	8,419
8	Earnings Per Share (of FV Re. 1/- each) (for continuing and discontinued operations)					
	Basic:	(0.59)	(0.22)	0.68	(0.77)	(0.98)
	Diluted:	(0.59)	(0.22)	0.68	(0.77)	(0.98)

**Notes:**

- The Financial Results of the Company have been prepared in accordance with Indian Accounting Standards (Ind AS) notified under the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 as amended by the Companies (Indian Accounting Standards) (Amendment) Rules, 2016.
- Hon'ble National Company Law Tribunal (NCLT), Chandigarh Bench vide Order dated 25.01.2019 has approved the Scheme of Amalgamation of four wholly owned subsidiaries i.e. BLB Commodities Limited, BLB Global Business Limited, Caprise Commodities Limited and Sri Sharadamba Properties Limited with the Company. As a result, the business activities of commodities, real estate, etc. were added to the activities carried by the Company. As this is a business combination of entities under common control, the amalgamation has been accounted using the 'pooling of interest' method (in accordance with the approved Scheme). The figures for the previous financial year 2017-2018 and relevant quarters have been recast as if the amalgamation had occurred from the beginning of the preceding period. Previous Year's financial statements of the four amalgamated companies were audited by other firms of Chartered Accountants and have now been regrouped/rearranged to give comparable figures as per the Scheme of Amalgamation.

Date : 30.05.2019  
Place : New Delhi

www.blblimited.com  
info@blblimited.com

For BLB Limited  
(Vikram Rathi)  
Executive Director

**STEL**

(CIN: L65993KL1990)  
Willington Island, Coc  
E-mail: secretarial@

Notice is hereby given that  
misplaced.

The company will proceed to  
objection in writing lodged with  
person claim any interest right

Folio No.	Name
0012511	Sushila Harila Harila Chhotia

Cochin  
31.05.2019

**BENGAL &**

Regd. Office : 7  
Telephone No.  
Website : www.be

- We have to inform that  
held on 30<sup>th</sup> May, 20  
Florence Investech Ltd  
2019 as the Record D  
Investech Ltd. and J  
Company will be issue  
Florence Investech Li  
J.K. Fenner (India) Lin  
(BACL) and their respo  
and BMF with BACL ar  
at the option of shareh  
sanctioned by both the  
Kolkata and Chennai  
2019 and 3<sup>rd</sup> May, 20  
operative from the App

- We have to further info  
Limited stand amalga  
in consideration of the  
in terms of the afores  
in BACL to (a) the shar  
of Rs. 10/- each in BAC  
in Florence and (b) to  
Shares of Rs. 10/- each  
shares of Rs. 10/- each  
option given to the sh  
to the Scheme, BACL  
in BACL in exchange  
shareholders of FIL in

Place: New Delhi  
Date: 30<sup>th</sup> May, 20



**NOTICE CUM ADDENDUM**

All unitholders are hereby informed about the changes in the Scheme Information Document (SID) / Key Information Memorandum (KIM) of Tata Balanced Advantage Fund regarding introduction of withdrawal facility of upto 12% of original cost of investment under Systematic Withdrawal Plan (SWP), Systematic Transfer Plan (STP) and Redemption/Switch-out, w.e.f. 03 June, 2019

- Unitholders will have the facility to withdraw maximum upto 12% of original cost of investment without an exit load on First in-First Out Basis in the above mentioned schemes.
- In case the withdrawal amount is beyond 12% of original cost of investment then the normal exit load as stated in SID of respective schemes will be applicable on the amount greater than 12%.

**Tata Balanced Advantage Fund**

Revised Exit Load from the effective date	Revised Exit Load Structure (% of NAV)
1) Redemption/Switch-out/SWP/STP on or before expiry of 365 days from the date of allotment: If the withdrawal amount or switched out amount is not more than 12% of the original cost of investment.	NIL
2) Redemption/Switch-out/SWP/STP on or before expiry of 365 days from the date of allotment: If the withdrawal amount or switched out amount is more than 12% of the original cost of investment.	1%
3) Redemption / Switch-out/SWP/STP after expiry of 365 days from the date of allotment	NIL

The above revision in exit load will be applicable to existing Investments in the scheme as on the effective date.

Notes:-

**Manali P**

Regd. Off: 'S'  
Chennai -  
CIN: L24294TN1986  
E-mail: co

**NOTICE  
INVESTOR EDU**

Pursuant to Section 1  
the IEPF Authority (Ac  
notice is hereby given  
of which dividend has  
years or more shall be  
case the beneficial o

